



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2616]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2019/श्रावण 17, 1941

No. 2616]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2019/SHRAVANA 17, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2019

**का.आ. 2875(अ).—**केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर और यवतमाळ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930 के 0.000 कि.मी. से 18.500 कि.मी. तक के भू-खण्ड (वरोरा-वणी सेक्शन) के निर्माण (चैदा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की धोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी वरोरा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930 के 0.000 कि.मी. से 18.500 कि.मी. तक (वरोरा-वणी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: चंद्रपुर |                  |                                |                       |                                  |                              |
|--|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| क्रमिक संख्या                                  | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार                 | भूमि की प्रकृति       | भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |
| तालुक का नाम: भद्रावती                         |                  |                                |                       |                                  |                              |
| गांव का नाम: नंदोरी                            |                  |                                |                       |                                  |                              |
| 1  | 228              | निजी(क्लास १ )                 | एग्रीकल्चर            | 0.0920000(हेक्टेयर)              | 0.0920000                    |
| गांव का नाम: रालेगांव (टोला)                   |                  |                                |                       |                                  |                              |
| 1  | 16/1/A           | निजी(क्लास १ )                 | एग्रीकल्चर            | 0.0100000(हेक्टेयर)              | 0.0100000                    |
| 2  | 16/1/B           | निजी(क्लास १ )                 | एग्रीकल्चर            | 0.0600000(हेक्टेयर)              | 0.0600000                    |
| 3  | 16/2             | सरकारी(नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन ) | नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन | 0.0200000(हेक्टेयर)              | 0.0200000                    |
| 4  | 16/3             | निजी(क्लास १ )                 | एग्रीकल्चर            | 0.0300000(हेक्टेयर)              | 0.0300000                    |
| 5  | 17               | निजी(क्लास १ )                 | एग्रीकल्चर            | 0.0200000(हेक्टेयर)              | 0.0200000                    |
| तालुक का नाम: वरोरा                            |                  |                                |                       |                                  |                              |
| गांव का नाम: शेम्बल                            |                  |                                |                       |                                  |                              |
| 1  | 285              | निजी(क्लास १ )                 | एग्रीकल्चर            | 0.0300000(हेक्टेयर)              | 0.0300000                    |
| कुल  |                  |                                |                       | 0.2620                           | 0.2620                       |

[फा. सं. NH-12037/84/2018-MAH-1/3A5]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2019

**S.O. 2875(E).**—In exercise of powers conferred by subsection (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.930 including construction of bypass, if any, in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 18.500 (Warora – Wani Section) in the district of Chandrapur and Yavatmal in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub divisional Officer Warora in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under subsection (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 18.500, (Warora – Wani Section) of the NH-930 in the State of Maharashtra

| State: MAHARASHTRA District: CHANDRAPUR |                      |                                      |                         |                      |                   |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Sl.No.                                  | Survey / Plot Number | Type of Land                         | Nature of Land          | Area (in Local Unit) | Area (in Hectare) |
| <b>Taluk: Bhadravati</b>                |                      |                                      |                         |                      |                   |
| <b>Village: Nandori</b>                 |                      |                                      |                         |                      |                   |
| 1                                       | 228                  | Private(CLASS 1 )                    | AGRICULTURE             | 0.0920000(Hectare )  | 0.0920000         |
| <b>Village: Ralegaon (Tola)</b>         |                      |                                      |                         |                      |                   |
| 1                                       | 16/1/A               | Private(CLASS 1 )                    | AGRICULTURE             | 0.0100000(Hectare )  | 0.0100000         |
| 2                                       | 16/1/B               | Private(CLASS 1 )                    | AGRICULTURE             | 0.0600000(Hectare )  | 0.0600000         |
| 3                                       | 16/2                 | Government(NOT FIT FOR CULTIVATION ) | NOT FIT FOR CULTIVATION | 0.0200000(Hectare )  | 0.0200000         |
| 4                                       | 16/3                 | Private(CLASS 1 )                    | AGRICULTURE             | 0.0300000(Hectare )  | 0.0300000         |
| 5                                       | 17                   | Private(CLASS 1 )                    | AGRICULTURE             | 0.0200000(Hectare )  | 0.0200000         |
| <b>Taluk: Warora</b>                    |                      |                                      |                         |                      |                   |
| <b>Village: Shembal</b>                 |                      |                                      |                         |                      |                   |
| 1                                       | 285                  | Private(CLASS 1 )                    | AGRICULTURE             | 0.0300000(Hectare )  | 0.0300000         |
| <b>Total</b>                            |                      |                                      |                         | 0.2620               | 0.2620            |

[F. No. NH-12037/84/2018-MAH-1/3A5]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.